

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 834]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 21, 2002/भाद्र 30, 1924

No. 834]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 21, 2002/BHADRA 30, 1924

संस्कृति विभाग

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2002

का.आ. 1024(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व के हैं।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का होने की घोषणा करने के अपने आशय की सूचना देती है।

उक्त संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का होने की घोषणा के संबंध में कोई आक्षेप, उक्त संस्मारक में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी किये जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर किया जा सकेगा और उस पर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली-110011 द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुसूची

क्र. सं.	संस्मारक/स्थल का नाम	स्थान	तालुक	जिला	नगर सं.	सर्वेक्षण सीमाएं				क्षेत्र	स्वामित्व	अभ्युक्तिताएं
						उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम			
1.	अरुणाचलेस्वर मंदिर	तिरुवन्नामलाई	तिरुवन्नामलाई	तिरुवन्नामलाई	515 ब्लाक सं० 7	1286, 1360, 1563	1554, 631, पूर्ण गोपुरा ओटावडई स्ट्रीट	514, 55 दक्षिण ओटा वडई स्ट्रीट	31/1/30/1 एकड़ स्ट्रीट	24.35	अरुणाचलेस्वर मंदिर की भूमि	मंदिर में पूजा होती है और एच आर एवं सी ई के नियंत्रण में है।

[फा. सं. 2-40/2002.एम.]

कस्तूरी गुप्ता मेनन, महानिदेशक

DEPARTMENT OF CULTURE

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2002

S.O. 1024 (E).— Whereas the Central Government is of the opinion that the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance.

Any objection to the declaration of the said monument to be of national importance, may be made within a period of two months from the date of issue of this notification in the Official Gazette, by any persons interested in the said monument, which will be taken into consideration by the Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi-110011

SCHEDULE


S. No.	Name of the Monument/Site	Locality	Taluk	District	Town Survey No.	Boundaries				Extent Acres	Ownership	Remarks
						North	East	South	West			
1	Arunachalesvara temple	Tiruvannamalai	Tiruvannamalai	Tiruvannamalai	515 (Block No. 7)	1288, 1360, 1553 (North Othavada Street)	1554, 851 (East Gopura Street)	514, 55 (South Othavada Street)	31/1, 30/124 35 (Paey Gopura Street)	124 35	Arunachalesvara temple land	Temple is under worship and controlled by HR & CE

[F. No. 2-40/2002-M]
KASTURI GUPTA MENON, Director General

SITE PLAN OF ARUNACHALESVARA TEMPLE AT TIRUVANNAMALAI, DISTT; TIRUVANNAMALAI, TAMILNADU

WARD NO-3, BLOCK-7,

10 0 10 20 30 40 50
METRES



AREA PROPOSED FOR PROTECTION

